

दिनांक 14 जून, 2017 को अपरान्ह 03:30 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गनाइजेशन (फियो) तथा Ebay इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में “ई-कॉमर्स का उपयोग करने वाले खुदरा निर्यातकों पर जीएसटी का प्रभाव (Impact of GST on retail exports using e-commerce tools)” विषय पर सत्र का आयोजन किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री बी.एम. गर्ग अपने स्वागत-भाषण में आदरणीय श्री मानवेन्द्र सिंह जी, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, कानपुर श्री ए.के. पाठक, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, कानपुर, श्री हनीत कौशल, केटेगरी एसोसिएट, Ebay India, मीडिया कर्मी तथा उपस्थित प्रतिभागीगण आप सभी का मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सर पदमपत सिंघनिया सभागार में स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश सन 1932 में लाला कमलापत सिंघानिया द्वारा स्थापित किया गया था। इसका विशेष ध्येय उत्तर प्रदेश के व्यापारिक हितों की रक्षा करना है। सन 1932 से लगातार इसी उद्देश्य से मर्चेट्स चैम्बर कार्यरत है। श्री गर्ग ने श्री पाठक जी के अनवरत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्री पाठक जी ने अथक परिश्रम करके G.S.T. से सम्बंधित धारणाओं का निवारण किया है और व्यापारियों को यह आश्वासन दिया है कि G.S.T. की व्यवस्था व्यापार के सरलीकरण को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। श्री गर्ग ने कहा कि आज तक मर्चेट्स चैम्बर में G.S.T. पर आधारित जितने सत्रों का आयोजन किया गया है उसमें आपको G.S.T. से सम्बंधित सारे प्रावधानों को समझाया गया है। तथा प्रश्नोत्तर काल में समुचित उत्तर दिए गए हैं। श्री गर्ग ने कहा कि आज का आयोजन ई-कॉमर्स (विशेष तथा रिटेल व्यापार तथा निर्यात करने) वाले व्यापारियों तथा उद्योगों के लिए है। E-Retailing में G.S.T. का प्रभाव से सम्बंधित जाकारियां दी जायेंगी। यह आयोजन इसलिए भी महत्व रखता है कि आने वाले समय में ई-रिटेल का व्यापार बढ़ता जा रहा है।

श्री मानवेन्द्र सिंह, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, कानपुर, ने विदेश व्यापार निति से सम्बंधित व्याख्यान दिया तथा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट का लिंक <http://dgft.gov.in/> साझा किया जिसमें व्यापारी विदेश व्यापार निति की विभिन्न पॉलिसीस को देख सकते हैं।

श्री ए.के. पाठक, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, कानपुर, ने ई-कॉमर्स का उपयोग करने वाले व्यापारियों पर G.S.T. के प्रभाव को समझाया। उन्होंने GST में पंजीकरण, रिटर्न फिलिंग का प्रक्रियाओं, I.T.C. के लिए क्लेम करना, G.S.T. तथा T.C.S. (Tax Collection and Source) के विभिन्न पहलुओं, उनके ई-कॉमर्स उपयोग करने वाले व्यापारियों पर क्रियान्वन तथा उसके प्रभाव के बारे में समझाया।

श्री हनीत कौशल, Ebay India, ने ई-कॉमर्स चैनल के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा देने से सम्बंधित पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दिया। श्री कौशल ने कहा कि Ebay, व्यापारियों को उनके उत्पाद को विभिन्न देशों में पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है।

सत्र का संचालन श्री अलोक श्रीवास्तवा, कोऑर्डिनेटर, फियो, ने किया एवं धन्यवाद-पस्ताव श्री वाई.एस.गर्ग, सलाहकार, फियो ने प्रस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य:

उक्त सत्र में श्री सुनील मदान, श्री उत्कर्ष, श्री ईशान, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारीगण, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व् फियो के सदस्यगण, E bay इंडिया के अधिकारीगण तथा कानपुर के अन्य व्यापारिक संस्था के सदस्यगण उपस्थित थे ।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश